

अनमोल वचन

झलक गोयल
C/o पंकज गर्ग

➤ ऐसे दो मूल पाप हैं, जिनसे अन्य पापों की उत्पत्ति होती है: "अधीरता और आलस्य"
फ्रेंक कापका

➤ पूरा जीवन एक प्रयोग है, जितने अधिक प्रयोग करेंगे, उतना ही अच्छा।
राल्स इमरसन

➤ किसी सफल व्यक्ति और दूसरों के बीच का अन्तर ताकत का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का होता है।
बिस लोमबाडी (फुटबाल खिलाड़ी)

➤ उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है, जो सहायता करने की भावना रखता है।
अब्राहम लिंकन

➤ अच्छा क्या है, इसे सीखने के लिये एक हजार दिन भी कम हैं। लेकिन बुरा क्या है, यह सीखने के लिये एक घन्टा भी ज्यादा है।
चीनी कहावत

➤ मित्रता आनन्द को दुगना और दुख को आधा कर देती है।
मिस्र की कहावत

➤ जो दिन हमें प्रसन्नता देते हैं वे हमें बुद्धिमान बनाते हैं।
जान मेसफील्ड

➤ मैंने सफलता का सपना कभी नहीं देखा, बल्कि उसे पाने के लिये जुटा रहा।
एस्टी लॉडर

➤ अतीत पर ध्यान केन्द्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केन्द्रित करो।
गौतम बुद्ध

➤ किसी को पहली मुलाकात में ही प्रभावित करना चाहिये, उसके लिये दूसरा मौका कभी नहीं मिलता।
विल रोजर

➤ जो अपने साथियों के चयन में विवेकी नहीं है, वह अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता।
जर्मी टेलर

➤ सफलता की राह में अस्वीकृति महज एक बढ़ाए हुये कदम से अधिक कुछ नहीं।
बैनेट

- वही सबसे सुखी है, चाहे राजा हो या किसान जो अपने घर में शान्ति पाता है।

गेटे

- सपने पूरे होंगे, लेकिन सपने देखना शुरू तो करें।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

- हम जानते हैं कि हम क्या हैं, पर ये नहीं जानते कि क्या बन सकते हैं।

विलियम शेक्सपियर

- जिस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, आपको उसे अवश्य ही सहन करना चाहिये।

स्पेन की कहावत

- हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर संकट न आये, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें।

रविन्द्र नाथ टैगोर

- जीवन कितना ही छोटा हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है।

जॉनसन

- अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सच्चा व्यवहार करें, तो आपको भी लोगों के साथ सच्चा व्यवहार करना होगा।

महर्षि अरविन्द घोष

- साझा की गयी खुशी दो गुनी होती है, साझा किया गया दुख आधा होता है।

स्वीडन की कहावत

- अपनी खुशियों के प्रत्येक क्षण का आनन्द लें, ये वृद्धावस्था के लिये अच्छा सहारा साबित होता है।

क्रिस्टोफर मोर्ल

- “यदि आप अमीर होने की अनुभूति चाहते हैं, तो उन वस्तुओं पर विचार करें, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता”

एक कहावत

- उपलब्धि के चार कदम: उद्देश्य पूर्ण योजना बनाएं। प्रार्थना के साथ तैयारी करें। सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। निरन्तर अपने लक्ष्य के लिये प्रयासरत रहें।

विलियम ए वार्ड

- गलती काम करने का दूसरा तरीका मात्र होती है।

कैथरीन ग्राहम (अमेरिकी प्रकाशक)

- खुश रहना और संतुष्ट रहना सौंदर्य बढ़ाने और युवा रहने के श्रेष्ठ तरीके हैं।

चार्ल्स डिकिन्स, उपन्यासकार

- यदि मैं उदास महसूस करती हूँ तो काम पर चली जाती हूँ। काम में व्यस्तता उदासी का उत्तम प्रतिकार है।

एलेनोर रुजवेल्ट

- जब तक हम गुम नहीं होंगे, अपनी तलाश नहीं कर पायेंगे।

हेनरी डेविड थुरु (लेखक व दार्शनिक)

- सौ वर्ष जीने की कामना रखते हो तो जवान और हंसमुख मित्रों के बीच रहो।

एलिजाबेथ सैफोर्ड

हिन्दी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है, यह सबकी सहोदरा है।

महादेवी वर्मा